



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264933  
CG-DL-E-24072025-264933

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947

No. 450]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 493(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण) आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना (नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग - आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना - नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

| सिक्के का मूल्यवर्ग | आकृति और बाह्य व्यास     | दांतों की संख्या | धातु संरचना                        |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| (1)                 | (2)                      | (3)              | (4)                                |
| एक सौ रुपये         | वृत्ताकार<br>44 मिलीमीटर | 200              | शुद्ध चांदी<br>चांदी- 99.9 प्रतिशत |

4. डिज़ाइन – सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार - आचार्य श्री महाप्रज्ञ की वीं जयंती 105 के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में उपरोक्त मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

**पहली अनुसूची**  
(नियम 4 देखें)

एक सौ रुपये

**अग्र भाग:**

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

**पृष्ठ भाग:**

सिक्के के इस भाग के मध्य में आचार्य श्री महाप्रज्ञ का चित्र होगा। सिक्के के ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105 वीं जयंती” उत्कीर्ण तथा सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “105<sup>TH</sup> BIRTH ANNIVERSARY OF ACHARYA SHRI MAHAPRAGYA” उत्कीर्ण होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चित्र की बाईं ओर वर्ष “1920”, दाईं ओर “2010” तथा चित्र के नीचे वर्ष “2025” अंतर्राष्ट्रीय अंक में अंकित होंगे।

**दूसरी अनुसूची**  
(नियम 5 देखें)

| सिक्के का मूल्यवर्ग | मानक वजन | अनुज्ञात उपचार  |  |
|---------------------|----------|---|--|
|                     |          | धातु संरचना में   | मानक वजन में   |
| (1)                 | (2)      | (3)   | (4)  |
| एक सौ रुपये         | 40 ग्राम | प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उसके ऊपर होगी। | 1/8000वां हिस्सा जोड़ कर या घटाकर, अर्थात् वजन में 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक का अंतर हो सकता है। |

[फा. सं. 02/07/2018- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2025

**G.S.R. 493(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 105<sup>TH</sup> Birth Anniversary of Acharya Shri Mahapragya) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Denomination of coin.** - The coin of One Hundred Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of 105<sup>TH</sup> Birth Anniversary of Acharya Shri Mahapragya.

**3. Dimension and composition of coin.** - The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

| Denomination of coin | Shape and outside diameter | Number of serrations | Metal composition                      |
|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| (1)                  | (2)                        | (3)                  | (4)                                    |
| One Hundred Rupees   | Circular<br>44 millimeter  | 200                  | Pure Silver<br>Silver - 99.9 per cent. |

**4. Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

**5. Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of 105<sup>TH</sup> Birth Anniversary of Acharya Shri Mahapragya and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

**THE FIRST SCHEDULE**

[See rule 4]

**ONE HUNDRED RUPEES**

**OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

**REVERSE:**

This face of the coin shall bear the image of **Acharya Shri Mahapragya**. The inscription “आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105 वीं जयंती” shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin and the inscription “105<sup>TH</sup> BIRTH ANNIVERSARY OF ACHARYA SHRI MAHAPRAGYA” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year “1920”, “2010” and “2025” in international numeral shall be written on the left side, right side and below the image of Acharya Shri Mahapragya respectively.

**THE SECOND SCHEDULE****[See rule 5]**

| Denomination of coin | Standard weight | Remedy allowed   |   |
|----------------------|-----------------|--|---|
|                      |                 | In composition   | In standard weight  |
| (1)                  | (2)             | (3)  | (4)   |
| One Hundred Rupees   | 40 Grams        | 999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above. | 1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams. |

[F. No. 02/07/2018-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser